

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 594

No. 166]

DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

[N.C.T.D. No. 594

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

सं.फा. III टीडी/न्यू संविधि/56/2011/1679.—आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 22 एवं 23 के साथ पठित धारा 18 की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईआईटी, दिल्ली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, चांसलर के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान), दिल्ली संविधि, 2008 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित संविधि बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(1) इस संविधि को आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान) —दिल्ली संविधि (संशोधन), 2008 कहा जाये ।
(2) ये भासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
2. **आईआईआईटी में संविधि 6 का संशोधन** (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) —दिल्ली संविधि, 2008, संविधि 6 में, खंड (2) में परन्तुक के लिये निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— “बशर्ते कि निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, अपने कार्यकाल के दौरान सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने पर अपने पद पर नहीं रहेगा ।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अश्विनी कुमार कंसल, उप निदेशक (एस बी)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd August, 2018

F.No. IIITD/New Statutes/56/2011/1679—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of section 18 read with 23 read with 22 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology)-Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Board of Governors of the IIIT Delhi, with the prior approval of the chancellor, hereby, makes the following Statutes to make amendment in the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology) Delhi Statutes, 2008 namely :-

1. Short title and Commencement- (1) These Statutes may be called the IIIT (Indraprastha Institute of Information and Technology)-Delhi Statute (Amendment), 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Statute 6- In the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology) Delhi Statutes, 2008, in Statute 6, in clause (2), for the proviso, the following proviso, shall be substituted, namely:-
“provided the *person appointed as Director shall, on completion of seventy years of age during his term of office, cease to hold office.*”

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ASHWANI KUMAR KANSAL, Dy. Director (SB)